



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 2006/फाल्गुन 19, 1927

No. 95]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 2006/PHALGUNA 19, 1927

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2006

सा.का.नि. 150(अ).—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, राजस्थान सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) नियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2006 है।

(ii) ये विनियम दिनांक 1-8-2003 से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "राजस्थान" शीर्षक और उसके अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

राजस्थान

1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ इयूटी पद	100
पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान	1
महानिदेशक (सिविल रक्षा) और कमांडेण्ट जनरल, होम गार्ड	1
अपर पुलिस महानिदेशक—होमगार्ड और सिविल रक्षा	1

अपर पुलिस महानिदेशक, आसूचना	1
अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध	1
अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण	1
अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, व्यवस्था (प्रोवीजनिंग), कानून और व्यवस्था	1
अपर पुलिस महानिदेशक, सशस्त्र वाहिनी	1
पुलिस महानिरीक्षक—सी.आई.डी. अपराध शाखा	1
पुलिस महानिरीक्षक—कानून और व्यवस्था, प्रशासन	1
पुलिस महानिरीक्षक—आर.ए.सी.	1
पुलिस महानिरीक्षक—आसूचना	1
निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी	1
पुलिस महानिरीक्षक—सतर्कता	1
पुलिस महानिरीक्षक—सुरक्षा	1
पुलिस महानिरीक्षक—भ्रष्टाचार-निरोधक ब्यूरो—I	1
पुलिस महानिरीक्षक—सी.आई.डी. (विशेष अपराध और आर्थिक अपराध)	1
पुलिस महानिरीक्षक—कार्मिक	1
पुलिस महानिरीक्षक—मानवाधिकार और हरिजन—अत्याचार	1
पुलिस महानिरीक्षक—रेलवे	1
पुलिस महानिरीक्षक—व्यवस्था और कल्याण	1
पुलिस महानिरीक्षक—दूर संचार	1
पुलिस महानिरीक्षक—सीमा	1
उप पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा	1
उप पुलिस महानिरीक्षक, आर.ए.सी.—I	1

उप पुलिस महानिरीक्षक, आर.ए.सी.-II	1	पुलिस अधीक्षक, बारण	1
उप पुलिस महानिरीक्षक, आर.ए.सी.-III	1	पुलिस अधीक्षक, जालौर	1
उप पुलिस महानिरीक्षक, सी.आई.डी. (सी.बी.)	1	पुलिस अधीक्षक, जोधपुर	1
उप पुलिस महानिरीक्षक, आसूचना-प्रचालन	1	पुलिस अधीक्षक, पाली	1
उप पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे	1	पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर	1
निदेशक, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो	1	पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर	1
उप पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक	1	पुलिस अधीक्षक, सिरोही	1
उप पुलिस महानिरीक्षक, सी.आई.डी. (आसूचना)	1	पुलिस अधीक्षक, उदयपुर	1
उप पुलिस महानिरीक्षक-(विशेष अपराध और आर्थिक अपराध)	1	पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—जयपुर रेंज-I	1	पुलिस अधीक्षक, चित्तोड़गढ़	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—जयपुर रेंज-II	1	पुलिस अधीक्षक, राजसामंड	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—बिकानेर रेंज	1	पुलिस अधीक्षक, बंसवाड़ा	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—भरतपुर रेंज	1	पुलिस अधीक्षक, बिकानेर	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—जोधपुर रेंज	1	पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—अजमेर रेंज	1	पुलिस अधीक्षक, गंगानगर	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—कोटा रेंज	1	पुलिस अधीक्षक, चुरु	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—उदयपुर रेंज	1	पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. अपराध (अन्वेषण)	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—प्रशासन और यातायात	1	पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (विशेष अपराध और आर्थिक अपराध)	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—प्रशिक्षण	1	पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (आसूचना)	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—भ्रष्टाचार-निरोधक ब्यूरो	3	पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. एस.एस.बी.	1
उप पुलिस महानिरीक्षक—आर.पी.टी.सी.	1	पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (हरिजन अत्याचार)	1
पुलिस अधीक्षक, उत्तरी जयपुर	1	पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा	1
पुलिस अधीक्षक, दौसा	1	पुलिस अधीक्षक, सतर्कता	1
पुलिस अधीक्षक, सोकर	1	पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (एस.बी.), जोधपुर	1
पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू	1	पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. सी.बी. (मानवाधिकार और कमजोर वर्ग)	1
पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर	1	पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी.सी.बी. (प्रशासन और पी.आर.सी.)	1
पुलिस अधीक्षक, अलवर	1	पुलिस अधीक्षक, जी.आर.पी., अजमेर	1
पुलिस अधीक्षक, धौलपुर	1	पुलिस अधीक्षक, जी.आर.पी. (उत्तर), जोधपुर	1
पुलिस अधीक्षक, भरतपुर	1	पुलिस अधीक्षक-भ्रष्टाचार-निरोधक ब्यूरो	2
पुलिस अधीक्षक, करौली	1	उप निदेशक और प्रधान, राजस्थान पुलिस अकादमी	1
पुलिस अधीक्षक, अजमेर	1	कमांडेन्ट, आर.ए.सी. वाहिनी	4
पुलिस अधीक्षक, नागौर	1	प्रधान, आर.पी.टी.सी.	1
पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा	1	कुल वरिष्ठ पद	100
पुलिस अधीक्षक, टोंक	1	2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत की दर से	40
पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर	1	3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त पद 1 का 25 प्रतिशत की दर से	25
पुलिस अधीक्षक, राजस्थान	1	4. उपर्युक्त पदों पर उपर्युक्त न. 2 और 3 के अनुसार	25
पुलिस अधीक्षक, राजस्थान	1		

5. भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अंतर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 तथा 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं	56
6. छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत की दर से	16
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1 + 2 + 3 + 4 + 6 - 5)	128
सीधी भर्ती के पद	128
पदोन्नति वाले पद	56
कुल प्राधिकृत संख्या	184

[सं. 11052/6/2003-अ.भा.से. (II)-क]

संगीता सिंह, निदेशक (सेवाएं)

**टिप्पणी 1 :** इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व (भारतीय पुलिस सेवा) के राजस्थान संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 167 थी।

**टिप्पणी 2 :** मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की संख्या का.नि.आ. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। भारतीय पुलिस सेवा के राजस्थान संवर्ग के संबंध में बाद में इन्हें निम्नलिखित सा.का.नि. संख्या और तिथियों द्वारा संशोधित किया गया :—

क्र.सं.	सा.का.नि. संख्या	दिनांक
1.	70(अ)	10-02-76
2.	503	10-04-76
3.	1333	18-09-76
4.	591(अ)	25-08-77
5.	1504	23-12-78
6.	399(अ)	09-07-80
7.	509	16-07-83
8.	674	17-09-83
9.	102	20-02-88
10.	622	26-10-91
11.	118	27-02-93
12.	320(अ)	31-03-95
13.	344	04-10-97
14.	740(अ)	31-12-97
15.	196(अ)	20-04-98

# **MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**

(Department of Personnel &amp; Training)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th March, 2006

**G.O. No. 150(F)**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the All India Services

Act, 1951 (LXI of 1951) read with sub-rules (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Rajasthan hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (i) These rules may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Amendment Regulations, 2006.

(ii) They shall come into force with effect from 01-08-2003.

2. In the Schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under the heading "Rajasthan" for Item Number "I Senior posts under the State Government" and entries occurring thereunder, the following shall be substituted namely :—

## **RAJASTHAN**

### **1. Senior Posts under the State Government 100**

Director General & Inspector General of Police, Rajasthan	1
Director General (Civil Defence) & Commandant General, Home Guards	1
Additional Director General of Police—Home Guards & Civil Defence	1
Additional Director General of Police, Intelligence	1
Additional Director General of Police, Crimes	1
Additional Director General of Police, Training	1
Additional Director General of Police, Administration, Provisioning and Law & Order	1
Additional Director General of Police, Armed Battalions	1
Inspector General of Police—CID Crimes Branch	1
Inspector General of Police—Law & Order, Administration	1
Inspector General of Police—RAC	1
Inspector General of Police—Intelligence	1
Director, Rajasthan Police Academy	1
Inspector General of Police—Vigilance	1
Inspector General of Police—Security	1
Inspector General of Police—Anti Corruption Bureau-I	1
Inspector General of Police—CID (Special Crimes and Economic Offences)	1
Inspector General of Police—Personnel	1
Inspector General of Police—Human Rights and Harijan Atrocities	1
Inspector General of Police—Railways	1
Inspector General of Police—Provisioning and Welfare	1

Inspector General of Police-Telecommunication	1	Superintendent of Police, Karauli	1
Inspector General of Police-Border	1	Superintendent of Police, Ajmer	1
Deputy Inspector General of Police, Security	1	Superintendent of Police, Nagaur	1
Deputy Inspector General of Police, RAC-I	1	Superintendent of Police, Bhilwara	1
Deputy Inspector General of Police, RAC-II	1	Superintendent of Police, Tonk	1
Deputy Inspector General of Police, RAC-III	1	Superintendent of Police, Kota City	1
Deputy Inspector General of Police- CID (CB)	1	Superintendent of Police, Jhalawar	1
Deputy Inspector General of Police, Intelligence-Operations	1	Superintendent of Police, Bundi	1
Deputy Inspector General of Police, Railways	1	Superintendent of Police, Baran	1
Director, State Crime Records Bureau	1	Superintendent of Police, Jalore	1
Deputy Inspector General of Police, Personnel	1	Superintendent of Police, Jodhpur	1
Deputy Inspector General of Police, CID (Intelligence)	1	Superintendent of Police, Pali	1
Deputy Inspector General of Police, (Special Crimes & Economic Offences)	1	Superintendent of Police, Jaisalmer	1
Deputy Inspector General of Police-Jaipur Range-I	1	Superintendent of Police, Barmer	1
Deputy Inspector General of Police—Jaipur Range-II	1	Superintendent of Police, Sirohi	1
Deputy Inspector General of Police—Bikaner Range	1	Superintendent of Police, Udaipur	1
Deputy Inspector General of Police—Bharatpur Range	1	Superintendent of Police, Dungarpur	1
Deputy Inspector General of Police—Jodhpur Range	1	Superintendent of Police, Chittorgarh	1
Deputy Inspector General of Police—Ajmer Range	1	Superintendent of Police, Rajsamand	1
Deputy Inspector General of Police—Kota Range	1	Superintendent of Police, Banswara	1
Deputy Inspector General of Police—Udaipur Range	1	Superintendent of Police, Bikaner	1
Deputy Inspector General of Police—Administration and Traffic	1	Superintendent of Police, Hanumangarh	1
Deputy Inspector General of Police—Training	1	Superintendent of Police, Ganganagar	1
Deputy Inspector General of Police—Anti Corruption Bureau	3	Superintendent of Police, Churu	1
Deputy Inspector General of Police—RPTC	1	Superintendent of Police, CID Crime (Investigation)	1
Superintendent of Police, Jaipur North	1	Superintendent of Police, CID (Special Crimes and Economic Offences)	1
Superintendent of Police, Dausa	1	Superintendent of Police, CID (Intelligence)	1
Superintendent of Police, Sikar	1	Superintendent of Police, CID SSB	1
Superintendent of Police, Jhunjhunu	1	Superintendent of Police, CID (Harijan Atrocities)	1
Superintendent of Police, Sawai Madhopur	1	Superintendent of Police, Security	1
Superintendent of Police, Alwar	1	Superintendent of Police, Vigilance	1
Superintendent of Police, Dholpur	1	Superintendent of Police, CID (SB), Jodhpur	1
Superintendent of Police, Bharatpur	1	Superintendent of Police, CID CB (Human Rights & Weaker Sections)	1
		Superintendent of Police, CID CB (Administration & PRC)	1
		Superintendent of Police, GRP, Ajmer	1
		Superintendent of Police, GRP (North) Jodhpur	1
		Superintendent of Police-Anti Corruption Bureau	2
		Deputy Director & Principal, Rajasthan Police Academy	1
		Commandant, RAC Battalion	4
		Principal, RPTC	1
		Total	100

2. Central Deputation Reserve @ 40% of Item 1 above	40
3. State Deputation Reserve @ 25% of Item 1 above	25
4. Training Reserve @ 3.5% of Item 1 above	03
5. Posts to be filled by promotion under Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33.3% of Item 1, 2, 3 and 4 above	56
6. Leave Reserve and Junior Posts Reserve @ 16.5% of Item 1 above	16
7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1 + 2 + 3 + 4 + 6 - 5)	128
<b>Direct Recruitment Posts</b>	<b>128</b>
<b>Promotion Post</b>	<b>56</b>
<b>Total Authorised Strength</b>	<b>184</b>

[No. 11052/6/2003-AIS(II)-A]

SANGEETA SINGH, Director (Services)

**Note 1 :** Prior to the issue of this notification, the total authorised strength of the Rajasthan (IPS) Cadre was 167.

**Note 2 :** The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide No. S.R.O. 3350, dated 22-10-1955. Subsequently, they were amended in respect of the Indian Police Service vide following G.S.R. numbers and dates in respect of Rajasthan cadre :—

Sl. No.	G.S.R. Numbers	Date
1.	70(E)	10-02-76
2.	503	10-04-76
3.	1333	18-09-76
4.	591(E)	25-08-77
5.	1504	23-12-78
6.	399(E)	09-7-80
7.	509	16-07-83
8.	674	17-09-83
9.	102	20-2-88
10.	622	26-10-91
11.	118	27-2-93
12.	320(E)	31-3-95
13.	344	4-10-97
14.	740(E)	31-12-97
15.	196(E)	20-4-98

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2006

**सा.का.नि. 151(अ).—** भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 के नियम 11 के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, राजस्थान सरकार

के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2006 है।

(ii) ये नियम दिनांक 1-8-2003 से प्रवृत्त होंगे।

2. (i) तालिका की "अनुसूची-III-क में, राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के समय वेतनमान से ऊपर के पदों में प्रथम कॉलम की "राजस्थान" प्रविष्टि और दूसरे तथा तीसरे कॉलमों में तदनुसूची प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

**राजस्थान**

पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान	24050-650-26000 रुपए
महानिदेशक (सिविल रक्षा) और कमांडेण्ट जनरल होम गार्ड	24050-650-26000 रुपए
अपर पुलिस महानिदेशक—होम गार्ड और सिविल रक्षा	22400-525-24500 रुपए
अपर पुलिस महानिदेशक, आसूचना	22400-525-24500 रुपए
अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध	22400-525-24500 रुपए
अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण	22400-525-24500 रुपए
अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन व्यवस्था (प्रोवीजनिंग), कानून और व्यवस्था	22400-525-24500 रुपए
अपर पुलिस महानिदेशक, सशस्त्र वाहिनी	22400-525-24500 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक, सी. आई. डी. अपराध शाखा	18400-500-22400 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक—कानून और व्यवस्था प्रशासन	18400-500-22400 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक, आर. ए. सी.	18400-500-22400 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक, आसूचना	18400-500-22400 रुपए
निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी	18400-500-22400 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक, सतर्कता	18400-500-22400 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा	18400-500-22400 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार-निरोधक ब्यूरो-I	18400-500-22400 रुपए

पुलिस महानिरीक्षक, सी. आई. डी. (विशेष अपराध और आर्थिक अपराध)

721 GI/06-2

पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक	18400-500-22400 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक, मानवाधिकार और हरिजन-अत्याचार	18400-500-22400 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे	18400-500-22400 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक, व्यवस्था (प्रोवीजनिंग) और कल्याण	18400-500-22400 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक, दूर-संचार	18400-500-22400 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक, सीमा	18400-500-22400 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा	16400-450-20000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक, आर. ए. सी.-I	16400-450-20000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक, आर. ए. सी.-II	16400-450-20000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक, आर. ए. सी.-III	16400-450-20000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक, सी. आई. डी. (सी. बी.)	16400-450-20000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक, आसूचना-प्रचालन	16400-450-20000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे निदेशक, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो	16400-450-20000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक	16400-450-20000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक, सी. आई. डी. (आसूचना)	16400-450-20000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक—(विशेष अपराध और आर्थिक अपराध)	16400-450-20000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक—जयपुर रेंज-I	16400-450-20000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक—जयपुर रेंज-II	16400-450-20000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक—बीकानेर रेंज	16400-450-20000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक—भरतपुर रेंज	16400-450-20000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक—जोधपुर रेंज	16400-450-20000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक—अजमेर रेंज	16400-450-20000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक—कोटा रेंज	16400-450-20000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक—उदयपुर रेंज	16400-450-20000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक—प्रशासन और यातायात	16400-450-20000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक—प्रशिक्षण	16400-450-20000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक—भ्रष्टाचार-निरोधक ब्यूरो	16400-450-20000 रुपए

उप पुलिस महानिरीक्षक-आर. पी. टी. सी. 16400-450-20000 रुपए

II-तालिका की "अनुसूची-III-ख में, राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान में (समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित) वेतन लेने वाले पदों में", पहले कॉलम की "राजस्थान" प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में तदनुसूची प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

पुलिस अधीक्षक, उत्तरी जयपुर  
पुलिस अधीक्षक, दौसा  
पुलिस अधीक्षक, सीकर  
पुलिस अधीक्षक, झुन्झनू  
पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर  
पुलिस अधीक्षक, अलवर  
पुलिस अधीक्षक, धौलपुर  
पुलिस अधीक्षक, भरतपुर  
पुलिस अधीक्षक, करौली  
पुलिस अधीक्षक, अजमेर  
पुलिस अधीक्षक, नागौर  
पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा  
पुलिस अधीक्षक, टोंक  
पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर  
पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ा  
पुलिस अधीक्षक, बूंदी  
पुलिस अधीक्षक, बारण  
पुलिस अधीक्षक, जालौर  
पुलिस अधीक्षक, जौधपुर  
पुलिस अधीक्षक, पाली  
पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर  
पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर  
पुलिस अधीक्षक, सिरोही  
पुलिस अधीक्षक, उदयपुर  
पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर  
पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़  
पुलिस अधीक्षक, राजसामंड  
पुलिस अधीक्षक, बंसवाड़ा  
पुलिस अधीक्षक, बीकानेर  
पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़  
पुलिस अधीक्षक, गंगानगर  
पुलिस अधीक्षक, चुरू  
पुलिस अधीक्षक, सी. आई. डी. अपराध (अन्वेषण)

पुलिस अधीक्षक, सी. आई. डी. (विशेष अपराध और आर्थिक अपराध)

पुलिस अधीक्षक, सी. आई. डी. (आसूचना)

पुलिस अधीक्षक, सी. आई. डी. एस. एस. बी.

पुलिस अधीक्षक, सी. आई. डी. (हरिजन अत्याचार)

पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा

पुलिस अधीक्षक, सतर्कता

पुलिस अधीक्षक, सी. आई. डी. (एस. बी.) जोधपुर

पुलिस अधीक्षक, सी. आई. डी. सी. बी. (मानवाधिकार और कमजोर वर्ग)

पुलिस अधीक्षक, सी. आई. डी. सी. बी. (प्रशासन और पी. आर. सी.)

पुलिस अधीक्षक, जी. आर. पी., अजमेर

पुलिस अधीक्षक, जी. आर. पी. (उत्तर) जोधपुर

पुलिस अधीक्षक-भ्रष्टाचार-निरोधक ब्यूरो

उपनिदेशक और प्रधान, राजस्थान पुलिस अकादमी

कमांडेन्ट, आर. ए. सी. वाहिनी

प्रधान, आर. पी. टी. सी.

[सं. 11052/6/2003-अ. भा. से. (II)-ख]

संगीता सिंह, निदेशक (सेवाएँ)

**टिप्पणी :** मुख्य नियम भारत के राजपत्र में संख्या सा.का.नि. 158 दिनांक 14 सितम्बर, 1954 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। भारतीय पुलिस सेवा के राजस्थान संवर्ग के लिए बाद में इन्हें निम्नलिखित सा. का. नि. संख्या द्वारा संशोधित किया गया :—

क्र. सं.	सा. का. नि. संख्या	दिनांक
1.	71 (अ)	10-2-76
2.	592 (अ)	25-8-77
3.	400 (अ)	9-7-80
4.	510	16-7-83
5.	675	17-9-83
6.	101	20-2-88
7.	623	26-10-91
8.	119	27-2-93
9.	345	4-10-97
10.	197(अ)	20-4-98

#### NOTIFICATION

New Delhi, 7th March, 2006

**G.S.R. 151(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with Rule 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government,

after consultation with the Government of Rajasthan hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (i) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Amendment Rules, 2006.
- (ii) They shall come into force with effect from 01-08-2003.
2. (i) In "Schedule III-A—Posts carrying pay above the time scale in the Indian Police Service under the State Government" in the Table, for the entry "Rajasthan" occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted namely :—

#### Rajasthan

Director General & Inspector General of Police, Rajasthan	Rs.24050-650-26000
Director General (Civil Defence) & Commandant General, Home Guard	Rs.24050-650-26000
Additional Director General of Police—Home Guard & Civil Defence	Rs.22400-525-24500
Additional Director General of Police, Intelligence	Rs.22400-525-24500
Additional Director General of Police, Crimes	Rs.22400-525-24500
Additional Director General of Police, Training	Rs.22400-525-24500
Additional Director General of Police, Administration, Provisioning & Law & Order	Rs.22400-525-24500
Additional Director General of Police, Armed Battalions	Rs.22400-525-24500
Inspector General of Police—CID Crime Branch	Rs.18400-500-22400
Inspector General of Police—Law & Order, Administration	Rs.18400-500-22400
Inspector General of Police—RAC	Rs.18400-500-22400
Inspector General of Police—Intelligence	Rs.18400-500-22400
Director, Rajasthan Police Academy	Rs.18400-500-22400
Inspector General of Police—Vigilance	Rs.18400-500-22400
Inspector General of Police—Security	Rs.18400-500-22400
Inspector General of Police—Anti Corruption Bureau-I	Rs.18400-500-22400
Inspector General of Police—CID (Special Crimes & Economic Offences)	Rs.18400-500-22400

Inspector General of Police— Personnel	Rs. 18400-500-22400
Inspector General of Police— Human Rights and Harijan Atrocities	Rs. 18400-500-22400
Inspector General of Police— Railways	Rs. 18400-500-22400
Inspector General of Police— Provisioning and Welfare	Rs. 18400-500-22400
Inspector General of Police— Telecommunication	Rs. 18400-500-22400
Inspector General of Police— Border	Rs. 18400-500-22400
Deputy Inspector General of Police, Security	Rs. 16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police, RAC-I	Rs. 16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police, RAC-I	Rs. 16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police, RAC-III	Rs. 16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police—CID (CB)	Rs. 16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police, Intelligence—Operations	Rs. 16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police, Railways	Rs. 16400-450-20000
Director, State Crime Records Bureau	Rs. 16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police, Personnel	Rs. 16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police, CID (Intelligence)	Rs. 16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police—(Special Crime and Economic Offences)	Rs. 16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police,—Jaipur Range-I	Rs. 16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police—Jaipur Range-II	Rs. 16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police—Bikaner Range	Rs. 16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police—Bharatpur Range	Rs. 16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police—Jodhpur Range	Rs. 16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police—Ajmer Range	Rs. 16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police—Kota Range	Rs. 16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police—Udaipur Range	Rs. 16400-450-20000

Deputy Inspector General of Police—Administration & Traffic	Rs. 16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police—Training	Rs. 16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police—Anti-Corruption Bureau	Rs. 16400-450-20000
Deputy Inspector General of Police—RPTC	Rs. 16400-450-20000

II—In “Schedule III-B— Post carrying pay in the Senior Scale of the Indian Police Service under the State Government (including posts carrying Special Pay in addition to pay in time scale)” in the Table, for the entry “**Rajasthan**” occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely :—

Superintendent of Police, Jaipur North
Superintendent of Police, Dausa
Superintendent of Police, Sikar
Superintendent of Police, Jhunjhunu
Superintendent of Police, Sawai Madhopur
Superintendent of Police, Alwar
Superintendent of Police, Dholpur
Superintendent of Police, Bharatpur
Superintendent of Police, Karauli
Superintendent of Police, Ajmer
Superintendent of Police, Nagaur
Superintendent of Police, Bhilwara
Superintendent of Police, Tonk
Superintendent of Police, Kota City
Superintendent of Police, Jhalawar
Superintendent of Police, Bundi
Superintendent of Police, Baran
Superintendent of Police, Jalore
Superintendent of Police, Jodhpur
Superintendent of Police, Pali
Superintendent of Police, Jaisalmer
Superintendent of Police, Barmer
Superintendent of Police, Sirohi
Superintendent of Police, Udaipur
Superintendent of Police, Dungarpur
Superintendent of Police, Chittorgarh
Superintendent of Police, Rajsamand
Superintendent of Police, Banswara
Superintendent of Police, Bikaner
Superintendent of Police, Hanumangarh
Superintendent of Police, Ganganagar
Superintendent of Police, Churu
Superintendent of Police, CID Crime (Investigation)
Superintendent of Police, CID (Special Crimes and Economic Offences)



Superintendent of Police, CID (Intelligence)  
 Superintendent of Police, CID SSB  
 Superintendent of Police, CID (Harijan Atrocities)  
 Superintendent of Police, Security  
 Superintendent of Police, Vigilance  
 Superintendent of Police, CID (SB), Jodhpur  
 Superintendent of Police, CID CB (Human Rights  
 and Weaker Sections)  
 Superintendent of Police, CID CB (Administration  
 and PRC)  
 Superintendent of Police, GRP, Ajmer  
 Superintendent of Police, GPR (North), Jodhpur  
 Superintendent of Police—Anti-Corruption Bureau  
 Deputy Director and Principal, Rajasthan Police  
 Academy  
 Commandant, RAC Battalion  
 Principal, RPTC

[No. 11052/6/2003-AIS (II)-B]

SANGEETA SINGH, Director (Services)

**Note :** The Principal Rules were published vide Gazette of India No. GSR 158 Dated 14th September 1954. These were subsequently amended for Rajasthan cadre of IPS vide GSR Nos. :—

S. No.	GSR NUMBERS	DATE
1.	71E	10-2-76
2.	592E	25-8-77
3.	400E	9-7-80
4.	510	16-7-83
5.	675	17-9-83
6.	101	20-2-88
7.	623	26-10-91
8.	119	27-2-93
9.	345	4-10-97
10.	197E	20-4-98

721 GJ/06-3.